

## कृषक वैज्ञानिक अंतरमिलन







## कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) दुमका, झारखंड।

E-Mail:- atma\_dumka@rediffmail.com

Tel. 06434- 237227

संवि. सं.-4/एक्सटेंसन रिकॉम्स प्रशिक्षण - 3/2005 दुमका - 273/दिनांक-6 - मार्च, 2021 ई०।

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

सेवा में,

महासचिव  
अदवा, दुमका।

विषय :-

अन्तर्राज्यीय परिभ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत दुमका जिला के 28 कृषकों को समेकित कृषि प्रणाली प्रक्षेत्र BAU सबौर का दो दिवसीय परिभ्रमण कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में अनुरोध पूर्वक कहना है कि दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड अन्तर्गत आकांक्षी गाँव के 28 कृषकों को दो दिवसीय परिभ्रमण हेतु समेकित कृषि प्रणाली प्रक्षेत्र BAU सबौर, भागलपुर का परिभ्रमण कराया जाना है। इस कार्य हेतु 1000/-रु० प्रति कृषक प्रति दिन व्यय निर्धारित है। परिभ्रमण की तिथि तय करते हुये अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय एवं इस कार्य हेतु विपत्र समर्पित किया जाय।

नोट - कृषकों का आना-जाना नाश्ता, भोजन, पानी एवं आवासन निशुल्क होगा।

कोविड-19 का पालन होगा।

सभी कृषकों को मारक एवं सेनिटाइजर की व्यवस्था करानी होगी।

विश्वासभाजन

*De.*  
6/03/2021  
परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

प्रेम कुमार दाह  
7/03/2021











# किसान मेला



50% अनुदानित दर पर नेपसेक स्प्रेयर का वितरण





## कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) दुमका, झारखंड।

E-Mail:- atma\_dumka@rediffmail.com

Tel. 06434- 237227

पत्रांक 71 आत्मा/दुमका - दिनांक 07 जुलाई, 2020 ई०।

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

सेवा में,

प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (सभी)  
प्रभारी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (सभी)  
दुमका जिला।

विषय :- SMAE योजनान्तर्गत प्रखंडों में कृषक गोष्ठी कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि SMAE योजनान्तर्गत विभिन्न प्रखंडों में एक-एक कृषक गोष्ठी का आयोजन कराया जाना है। कृषक गोष्ठी का विषय खरीफ फसल का प्रबंधन है। विभिन्न प्रखंडों में कृषक गोष्ठी आयोजित करने की तिथि एवं स्थल निम्न है -

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	कृषक गोष्ठी आयोजन की तिथि	स्थल
1	दुमका एवं जरमुण्डी	09.07.2020	प्रत्यक्ष हेतू निर्धारित संकुल के पंचायत भवन में
2	जामा एवं सरैयाहाट	10.07.2020	
3	रामगढ़ एवं मसलिया	11.07.2020	
4	रानेश्वर एवं शिकारीपाड़ा	13.07.2020	
5	काठीकुण्ड एवं गोपीकान्दर	14.07.2020	

नोट - कृषक गोष्ठी हेतु व्यय का निर्धारण पूर्व में निर्धारित व्यय विवरणी के आधार पर करना है।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।





**कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) दुमका, झारखंड।**

E-Mail:- atma\_dumka@rediffmail.com

Tel. 06434- 237227

पत्रांक 81 आत्मा/दुमका - दिनांक 15 जुलाई, 2020 ई०।

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

सेवा में,

उप परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

विषय :-

सभी प्रखंडों के SMAE योजनान्तर्गत प्रत्यक्षण वाले संकूल ग्राम में कृषक गोष्ठी के आयोजन कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि SMAE योजनान्तर्गत निम्नलिखित प्रखंडों के संकूल गाँवों में कृषक गोष्ठी का आयोजन कराया जाना है -

दिनांक	प्रखंड	गाँव/पंचायत	समय	प्रखंड	गाँव/पंचायत	समय
17.07.2020	दुमका	खपरो/गादिकोरैया	11:00 am to 01:00 pm	जामा	मोहलबगना	02:00 pm to 04:00 pm
18.07.2020	काठीकुण्ड	मकसचापड़/तेलियाचक बाजार		गोपीकान्दर	धिरुडीह/ओरमो	
20.07.2020	रामगढ़	बहियार/नौखेता		सरैयाहाट	बरहेट/दिन्धी	
21.07.2020	मसालिया	आमगाछी/तिलबाद		जरमुण्डी	गादी कमरडीहा/शंकरपुर	
22.07.2020	शिकारीपाड़ा	भिलाईपानी/कुशपहाड़ी		रानेश्वर	कुमीरखाला/बोंसकुली	

उक्त विवरणी के आलोक में कृषक गोष्ठी कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए निर्धारित गाँव में कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रति कार्यक्रम 5000/- रुपये व्यय निर्धारित है। जिसका व्यय निर्धारित विवरण के अनुसार किया जाएगा।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

ज्ञापक 81 आत्मा/दुमका,

दिनांक 15 जुलाई, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :- प्रखंड तकनीकी प्रखंड सभी के सूचनार्थ एवं आदेशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि के पूर्व संकूल गाँव जाकर गोष्ठी के बारे में सूचित करेंगे और अपने ATM के साथ निर्धारित तिथि को समय से पूर्व संकूल गाँव में उपस्थित रहेंगे।

*[Signature]*  
परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।



## कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) दुमका, झारखंड।

E-Mail:- atma\_dumka@rediffmail.com

Tel. 06434- 237227

पत्रांक 259 आत्मा/दुमका - दिनांक 01 मार्च, 2021 ई०।

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

सेवा में,

प्रखंड तकनीकी प्रबंधक,  
रानेश्वर-सह-प्रभारी, मसलिया।

विषय :- SMAE योजनान्तर्गत कृषक गोष्ठी के आयोजन के संबंध में।  
महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि SMAE योजनान्तर्गत कृषक गोष्ठी के आयोजन कराया जाना है। निम्नलिखित प्रखंडों के आकांक्षी गाँव में कृषक गोष्ठी का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के लिए 5000/-रु० जो पूर्व के भाति व्यय की जाएगी। कृषक गोष्ठी की तिथि तय करते हुये अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय एवं इस कार्य हेतु विपत्र समर्पित किया जाय।

1. मसलिया प्रखंड में 2 कृषक गोष्ठी
2. रानेश्वर प्रखंड में 3 कृषक गोष्ठी

नोट - कृषकों का अल्पाहार एवं पानी निशुल्क होगा।

कोविड-19 का पालन होगा।

सभी कृषकों को मास्क एवं सेनिटाइजर की व्यवस्था करानी होगी।

विश्वासभाजन

*Dr.*  
01/03/2021  
परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।





## कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) दुमका, झारखंड।

E-Mail:- atma\_dumka@rediffmail.com

Tel. 06434- 237227

पत्रांक सं० 163 दुमका / दिनांक 10 अक्टूबर, 2020

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

सेवा में,

प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (सभी)  
सहायक तकनीकी प्रबंधक (सभी)  
दुमका जिला।

विषय :-

दिनांक 15.10.2020 को आत्मा, सभागार, दुमका में आयोजित महिला किसान दिवस उत्सव मनाने हेतु प्रगतिशील महिला कृषकों को भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि भारत सरकार कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि उत्पादन व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में ग्रामीण महिलाओं के सराहनीय योगदान को दृष्टिगत करते हुये दिनांक 15.10.2020 को आत्मा सभागार, दुमका में पूर्वाह्न 10 बजे से महिला किसान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभअवसर पर विभिन्न प्रखंडों के प्रगतिशील कृषकों और कृषि व्यापारियों को आमंत्रित किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि को निर्धारित समय पर विभिन्न प्रखंडों से निर्धारित संख्या में महिला कृषकों को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०सं०	प्रखंड	महिला कृषकों की संख्या	क्र०सं०	प्रखंड	महिला कृषकों की संख्या
1	दुमका	10	5	शिकारीपाड़ा	5
2	जामा	10	6	कठीकुण्ड	5
3	जरमुंडी	10	7	रामगढ़	5
4	मसलिया	5			

विश्वासभाजन

*Le*  
10/10/2020  
परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।





I



कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) दुमका, झारखण्ड।

E-Mail:- atma\_dumka@rediffmail.com

Tel. 06434- 237227

9/10

फूल अंक 20/10

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस-सह-महिला कृषक गोष्ठी

स्थान - आत्मा, दुमका

दिनांक 08/03/2021

कृषक का नाम रेखा देवी पिता का नाम श्री रमेश चरण मंडल ग्राम लसकुलिया

प्रखंड जरमुंडी जिला दुमका मोबाईल नं० 9608943877 आधार नं० 219026387018

सही ☒ और ☐ गलत का चिन्ह लगायें

1. आलू किस गौशम में लगता है -

उत्तर :- (क) खी ☒ (ख) खरीफ ☐ (ग) गरमा ☐ (घ) नहीं जानते ☐

2. बैंगन के एक प्रभेद का नाम बताएँ -

उत्तर :- (क) लम्बा बैंगन ☒ (ख) उजला बैंगन ☐ (ग) काला बैंगन ☐ (घ) नहीं जानते ☐

3. बैंगन में लगने वाले एक रोग का नाम बताएँ -

उत्तर :- (क) जीवाणु ग्ला रोग ☒ (ख) पत्ती सड़न रोग ☐ (ग) पत्ती धब्बा रोग ☐ (घ) नहीं जानते ☐

4. सब्जी का नर्सरी कैसे तैयार होता है एक नाम बताएँ -

उत्तर :- (क) सतह के नीचे ☐ (ख) सतह के ऊपर ☒ (ग) नाली में ☐ (घ) नहीं जानते ☐

5. शरद ऋतु का एक फूल का नाम बताएँ -

उत्तर :- (क) गेरुआ ☒ (ख) चमेली ☐ (ग) रात की रानी ☐ (घ) नहीं जानते ☐

6. आम का एक प्रभेद का नाम बताएँ -

उत्तर :- (क) मालदह ☒ (ख) चाईना ☐ (ग) शाही ☐ (घ) इलाहाबादी ☐

7. लीची का एक प्रभेद का नाम बताएँ -

उत्तर :- (क) कृष्णभोग ☐ (ख) भरत भोग ☐ (ग) शाही ☒ (घ) इलाहाबादी ☐

8. पपीता कितने दूरी पर लगाया जाता है -

उत्तर :- (क) 3 मीटर ☐ (ख) 2 मीटर ☒ (ग) 5 मीटर ☐ (घ) नहीं जानते ☐

9. बर्मी खाद किससे तैयार होता है -

उत्तर :- (क) गोबर ☐ (ख) कचरा ☐ (ग) घास फूस ☐ (घ) केचुआ ☒

10. केले का फसल कितने माह में तैयार होता है -

उत्तर :- (क) 14 माह ☒ (ख) 12 माह ☐ (ग) 9 माह ☐ (घ) नहीं जानते ☐

हस्ताक्षर